



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1982/अग्राहयण 3, 1904  
No. 353] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 1982/AGRAHAYAN 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1982

सं० 280/82 केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सां. कां० निं० 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंककारी) की अधिसूचना सं० 69/76, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सारोख, 16 मार्च, 1976 को अधिकांश करते हुए उस सफेद छपाई के कागज को, जो भारतीय मानक संस्थान द्वारा अनुमोदित प्रति वर्ग मीटर 60 ग्राम से अधिकतम पदार्थ वाला है और उक्त संस्थान द्वारा सफेद छपाई के कागज के लिए अधिसूचित विनिर्देशों के समुच्चय है, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1914 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 के उपमद (1) के अन्तर्गत आता है, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उनमें उत्पाद शुल्क से जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, छपाई कागज के लिए प्रसारित वार्षिक थोक नकद कीमत यदि वह कागज निर्यात आदेश, 1979 के अधीन सरकार द्वारा नियत किया गया है या किसी न्यायलय द्वारा कोई उंची कीमत प्राधिकृत की गई है, से पांच प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

परन्तु यह कि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसा कागज—

(i) आपूर्ति और ध्वजन के महानिदेशक को, या

(ii) विभिन्न शैक्षिक प्रयोजन के लिए (जैसे पाठ्य पुस्तकें, छात्रास पुस्तकालय और विषयविद्यालय परीक्षाएं)

प्रदाय किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “थोक नकद कीमत” पद से कारखाने की भूतपूर्व थोक नकद कीमत अभिप्रेत है जिसमें सभी केन्द्रीय और राज्य उद्ग्रहण सम्मिलित नहीं हैं।

[कां० सं० 61/30/82 सी एक्स-2]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th November, 1982

No. 280/82-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 717(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking) No. 69/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, the Central Government hereby exempts white printing paper of a substance not exceeding 60 grams per square metre

of a shade approved by the Indian Standards Institution and conforming to the specifications for white printing paper as notified by the said Institution, and falling under sub-item (1) of item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the date specified in the said First Schedule, as is in excess of 5 per cent of the actual wholesale cash price charged for such white printing paper, whether fixed by the Government under the Paper Control Order 1979, or any higher price authorised by any court :

Provided that the proper officer is satisfied that such paper is supplied—

★(i) to the Directorate General of Supplies and Disposals .  
or

(ii) for various educational purposes (such as, for text books, exercise books and University examinations).

Explanation.—For the purpose of this notification, the expression “wholesale cash price” means the wholesale ex-factory price, excluding all Central and State levies.

[F. No. 61/30/82-CX. 2]

सं० 281/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 718(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,

नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (गजस्ट और बैंककारी विभाग) की अधिसूचना सं० 68/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 16 मार्च, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में क्रम सं० (1) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 61/30/82-सी. एक्स-2]

श्री० मेहता, अवर सचिव

#### No. 281/82-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 718(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (i) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking) No. 68/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, namely :—

In the Table annexed to the said notification, Sl. No. (i) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 61/30/82-CX. 2]

D. MEHTA, Under Secy.